



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 631 राँची ,सोमवार 10 अग्रहायण 1936 (श०)
1 दिसम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2014

संख्या-1/पी0-104/2014 का. - 11380--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मनीष रंजन, भा.प्र.से. (झा:2002) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत गढ़वा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

2. उपायुक्त, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री सुधांशु भूषण बरवार, भा.प्र.से. (झा:99) कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 631—50 ।